

ॐ

~~~~~

## विद्या भवन,बालिका विद्यापीठ,लखीसराय ।

कक्षा-सप्तम

विषय- हिन्दी

दिनांक—14/09/2020 हिन्दी दिवस

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ॐ  
मेरे प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात!

आपका हर दिन खुशियों से भरा हो!

आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ एवं  
बधाइयाँ! हम लोग कक्षा से संबंधित पठन-पाठन नित्य  
कर ही रहे हैं ,आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हिंदी  
की महत्ता एवं हिंदी दिवस के बारे में कुछ विशेष चर्चा  
करेंगे, इसे आप लोग पूरे मनोयोग से पढ़ेंगे ।

# एन सी इ आर टी पर आधारित

## हिन्दी दिवस

“हिन्दी मेरी माँ ने सिखाया है इसलिए मुझे हिन्दी अन्य सभी भाषाओं से ज्यादा प्यारी है।“

---अज्ञात

हिन्दी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को मनाया जाता है। 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिन्दी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिन्दी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितम्बर को प्रतिवर्ष हिन्दी-दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तथ्य यह भी है कि 14 सितम्बर 1949 को हिन्दी के पुरोधा व्योहार राजेन्द्र सिन्हा का 50-वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के

लिए काका कालेलकर, मैथिलीशरण गुप्त, हजारीप्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविन्ददास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यौहार राजेन्द्र सिंह ने अथक प्रयास किए।

जब भी बात देश की उठती है तो हम सब एक ही बात दोहराते हैं, “हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा”। यह पंक्ति हम हिंदुस्तानियों के लिए अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। हिंदी अपने देश हिंदुस्तान की पहचान है। यह देश की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है इसीलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि इसी दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारतीय गणराज्य की राजभाषा घोषित किया था। हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए तत्कालीन भारतीय सरकार ने 14 सितंबर 1949 से प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने अनुरोध किया था। तब से लेकर आज तक हम हर एक वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मानते हैं।

हिंदी  
दिवस



हिन्दी दिवस की हार्दिक  
शुभकामनाएँ

RA.ORG

भाषा व संस्कृति का गौरव

छात्र कार्य-

“वर्तमान समय में हिंदी” पर एक निबंध तैयार करें।